

निर्देश:-

- (I) सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं।
- (II) प्रश्न क्र. 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, सत्य/असत्य 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के प्रश्न हैं।
- (III) प्रश्न क्र. 6 से 15 तक अति लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित हैं।
- (IV) प्रश्न क्र. 16 से 19 तक लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित हैं।
- (V) प्रश्न क्र. 20 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं। शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित हैं।
- (VI) प्रश्न क्र. 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिये गये हैं।
- (VII) संख्यात्मक प्रश्नों में शब्द सीमा का बंधन नहीं है।

1. सही विकल्प चुनकर लिखिए -

(1x6=6)

- (I) साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार होने चाहिये -
 - (अ) तीन
 - (ब) दो
 - (स) सात
 - (द) दस
- (II) भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया है -
 - (अ) 1947 में
 - (ब) 1956 में
 - (स) 1951 में
 - (द) 1932 में
- (III) यदि साझेदार के आहरण की तिथियाँ नहीं दी गई हो तो आहरण पर व्याज की गणना की अवधि कितनी होती है-
 - (अ) 6 माह
 - (ब) 5½ माह
 - (स) 6½ माह
 - (द) 12 माह
- (IV) साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन किस अनुपात में होता है-
 - (अ) पूर्व अनुपात में
 - (ब) समान अनुपात में
 - (स) नये अनुपात में
 - (द) पूंजी अनुपात में
- (V) पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है-
 - (अ) व्यवसाय बंद होने पर
 - (ब) नए साझेदार के प्रवेश पर
 - (स) फर्म में लाभ होने पर
 - (द) फर्म में हानि होने पर
- (VI) अवकाश ग्रहित साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है-
 - (अ) वार्षिक उच्चत खाता
 - (ब) पूंजी खाता
 - (स) चालू खाता
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिये -

(1x7=7)

- (I) नया अनुपात - पुराना अनुपात = _____ ।
- (II) पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ/हानि से _____ साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है।
- (III) वसूली खाता फर्म के जीवन में बार बनाया जाता है।
- (IV) कम्पनी के कार्यक्षेत्र का उल्लेख करता है।
- (V) निर्गमित पूंजी कभी भी.....पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है।
- (VI) अंश पूंजी जिस प्रमुख शीर्षक में लिखी जाती है उसे.....कोष कहते हैं।
- (VII) विश्लेषण का साधारण तात्पर्य.....आंकड़े हैं।

3. सही जोड़ी बनाईये -

(1x6=6)

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(I) पूंजी पर व्याज तभी दिया जाता है जब	(a) पूंजीगत लाभ
(II) फर्म का व्यापार अवैध होना	(b) पूंजीगत प्राप्ति
(III) ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि	(c) अनिवार्य विघटन
(IV) ऋणपत्रों पर प्रीमियम	(d) स्थायी संपत्ति
(V) ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन	(e) पूंजीगत हानि
(VI) वाहन	(f) फर्म को लाभ हुआ हो

4. सत्य/ असत्य बताईये -

(1x6=6)

- (I) लाभ-हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ-हानि की अन्तिम राशि का हिसाब रखने के लिये बनाया जाता है।
- (II) साझेदारों के आहरण पर व्याज का लेखा रोकड़ खातों में किया जाता है।
- (III) नये साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करता है।
- (IV) ऐच्छिक साझेदारी के अनुसार एक साझेदार शेष सभी साझेदारों की इच्छा से ही निवृत्त हो सकता है।
- (V) कम्पनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है।
- (VI) मूल्य ह्रास एक रोकड़ मद है।

5. एक वाक्य में उत्तर दीजिये -

(1x7=7)

- (I) ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है?
- (II) निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन पत्र आए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं?
- (III) कम्पनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं?
- (IV) कम्पनी के स्थिति विवरण के किस शीर्षक में विकास संबंधी व्यय को दर्शाया जाता है?
- (V) चालू अनुपात व्यवसाय की कौन-सी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है?
- (VI) किस अनुपात का संबंध बेचे गए माल की लागत एवं औसत स्क्रंध से है?
- (VII) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा रोकड़ बहाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया है?

6. यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन ₹1500 वर्ष भर आहरित करता है तो 10% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर व्याज ज्ञात कीजिए।

2

अथवा

यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंतिम दिन ₹1000 वर्ष भर आहरित करता है तो 10% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर व्याज ज्ञात कीजिए।

7. जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उत्पन्न होने वाली हिसाब सम्बंधी दो समस्याएं बताइये

2

अथवा

रमन , अमन और नमन एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभलाभ अनुपात 4 : 3 : 2 है। 31 मार्च 2018

को अमन की मृत्यु हो जाती है। अमन की मृत्यु के पश्चात शेष साझेदारों का लाभलाभ अनुपात क्या होगा?

8. वसूली खाते से क्या आशय है? 2
अथवा
 साझेदारी फ़र्म के विघटन से क्या आशय है?
9. अंश से क्या आशय है? 2
अथवा
 पार्षद सीमा नियम किसे कहते हैं?
10. समता अंशों से क्या आशय है? 2
अथवा
 पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं?
11. बकाया मांग से क्या अभिप्राय है? 2
अथवा
 अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है?
12. भाग युक्त एवं अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है? 2
अथवा
 अंश समर्पण किसे कहते हैं?
13. प्रीमियम पर ऋण पत्र के निर्गमन से क्या आशय है? 2
अथवा
 नग्न ऋण पत्र ' से क्या आशय है?
14. लेखांकन अनुपात के उद्देश्य लिखिए। 2
अथवा
 अनुपात विश्लेषण का महत्व दो बिन्दुओं में समझाइए।
15. रोकड़ अंतर्वाह से क्या आशय है? 2
अथवा
 रोकड़ बहिर्वाह से क्या आशय है?
16. ख्याति की दो विशेषताएं लिखिए। 3
अथवा
 एक फर्म का औसत लाभ ₹66000 है और पूंजीकरण की दर 12% है। फर्म की विविध सम्पत्तियां और दायित्व क्रमशः ₹750000 व ₹350000 हैं। ख्याति की गणना कीजिए।
17. बसंत और विष्णु का निम्नलिखित चिट्ठा है- 3

दायित्व	राशि ₹ में	सम्पत्ति	राशि ₹ में
पूंजी-		भवन	25000
बसंत 12000		उपस्कर	4000
विष्णु 13000	25000	देनदार	12000
लेनदार	21000	बैंक शेष	15000
देय विपत्र	15000	रोकड़	5000
	61000		61000

निम्नलिखित शर्तों पर उन्होंने विवेक को साझेदारी में प्रवेश दिया-

- (i) विवेक 1/4 भाग के लिए ₹15000 पूंजी के लाएगा।
- (ii) ख्याति का मूल्यांकन ₹14000 किया गया।
- (iii) देनदार पर 5% संचिति का निर्माण किया जाएगा।
- (iv) भवन एवं उपस्कर पर 5% ह्रास काटा जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए।

अथवा

मोनू और सोनू 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। फर्म की सम्पत्ति और दायित्व हैं-देनदार ₹2000, स्कंध ₹5000, भवन ₹8000 और लेनदार ₹8000। टीनू के प्रवेश पर निश्चित हुआ कि भवन के मूल्य में ₹1100 की वृद्धि की जाए देनदारों पर 3% डूबत ऋण संचिति की जाए लेनदारों पर 2% कटौती का प्रावधान किया जाए। स्कंध का मूल्य ₹5800 आंका गया। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए।

18. ऋणपत्रों की उपयोगिता के तीन बिंदु लिखिए।

3

अथवा

सुविधा लिमिटेड ने ₹100 वाले 2000 ऋणपत्र 10% प्रीमियम पर जारी किए। इन पर राशियाँ इस प्रकार देय थी- ₹20 आवेदन पर, ₹40 आवंटन पर (प्रीमियम सहित) एवं शेष राशि प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय थी। सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए।

19. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग I के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के मुख्य शीर्षकों को समझाइए।

3

अथवा

कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप दीजिए।

20. साझेदारी की चार विशेषताओं को समझाइए।

4

अथवा

साझेदार के चार अधिकार समझाइए।

21. मृत साझेदार को चुकायी जाने वाली राशि के उन चार बिन्दुओं को समझाइये जो निवृत्त होने वाले साझेदार की देय राशि से भिन्न है।

4

अथवा

अ, ब और स साझेदार हैं, जो लाभों को 2 : 3 : 5 के अनुपात में बाँटते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही ₹1,00,000 से एक ख्याति खाता विद्यमान है। ब अवकाश ग्रहण करता है और ब के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन ₹90,000 पर किया गया। अ और स ने भविष्य में लाभ समान अनुपात में बाँटने का निर्णय किया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

22. एक्स लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 30 अंशों को जप्त कर लिया। अंशधारी ने आवेदन पत्र के 3 रुपये प्रति अंश तो दे दिये थे लेकिन आवंटन के 4 रुपये एवं अंतिम याचना के 3 रुपये प्रति अंश न दे सका। अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए।

4

अथवा

कम्पनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

23. रोकड़ प्रवाह विवरण की चार सीमाएँ लिखिए।

4

अथवा

रोकड़ प्रवाह विवरण में कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं? समझाइए।
